

वाणिज्य में स्नातक बी. कॉम(एफ. वाई. यू. पी.)

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली

बी. सी. ओ. सी. -136: आयकर विधान एवं व्यवहार

सत्रीय कार्य
2026-27

जाँच सत्रीय कार्य की अवधि - 1st जुलाई 2026 से 30th जून 2027

चतुर्थ सत्र



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली -1100 68



वाणिज्य में स्नातक (बी. कॉम)
बी. कॉम(एफ. वाई. यू. पी.)

बी. सी. ओ. सी. -136: आयकर विधान एवं व्यवहार

सत्रीय कार्य 2026—27

प्रिय छात्र/छात्राओं,

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30% अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इस सत्रीय कार्य को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

1. वे छात्र जो दिसम्बर 2026 की सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। वे 15 अक्टूबर 2026 तक जमा करवायें।
2. वे छात्र जो जून 2027 के सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें 15 मार्च 2027 तक जमा करवाना होगा।

आपको सभी पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करना होगा।

अध्यापक जांच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	बी. सी. ओ. सी. -136
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	आयकर विधान एवं व्यवहार
सत्रीय कार्य का कोड	:	बी.सी.ओ.सी.-136/टी. एम. ए./2026 - 27
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- क) आकस्मिक आय (casual income) से आप क्या समझते हैं? आयकर अधिनियम में आकस्मिक आय सम्बन्धी नियम को बताइये। (10+ 10)
ख) करदाता की इन श्रेणियों के लिए कुल आय के दायरे को समझाएं: i) निवासी ii) सामान्य रूप से निवासी नहीं iii) अनिवासी
- क) मकान की संपत्ति के वार्षिक मूल्य को परिभासित कीजिए। यदि माकान गतवर्ष में कुछ समय के लिए किराया पे उठाया गया हो तथा शेष समय में स्वामी द्वारा स्वयं के रिहायश के लिए प्रयोग किया गया हो तो वार्षिक मूल्य कैसे निकला जाएगा ? (10+ 10)
ख) किसी व्यक्ति की कुल कर-योग्य आय की गणना में कौन-से चरण शामिल हैं?
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें** (5 x 4)
क) भारत में प्राप्त मानी जाने वाली आय
ख) आयकर धारा 80C के तहत कटौती
ग) आयकर धारा 54F के तहत कर मुक्त पूँजी लाभ
घ) अवयस्क के आय को जोड़ने के सम्बन्ध में प्रावधान।
- श्री विशेष ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, 34 वर्ष 9 माह 23 दिन की सेवा के उपरान्त 23 जून, 2024 को सेवानिवृत्त होने पर रु. 5,76,000 ग्रेच्युटी के प्राप्त करते हैं। उन्होंने सबसे अन्त में निम्नलिखित कुल वेतन प्राप्त किया मूल वेतन रु. 30,000 प्रतिमाह मंहगाई भत्ता रु. 7,200 प्रति माह (स्थायी), मूल वेतन में रु. 1,200 प्रति माह की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष 1 जनवरी की होती है। कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में ग्रेच्युटी की कितनी राशि कर मुक्त होगी। (10)
- श्रीमती सुमन गर्ग ने अपनी आय के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित विवरण जमा कराये। वह दिल्ली में रहती है। (10)
i) मूल वेतन 10,000 प्रति माह
ii) मंहगाई भत्ता वेतन का 10% (मंहगाई भत्ता वेतन का हिस्सा है)
iii) मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 30%
iv) चिकित्सा भत्ता 200 रु. प्रति माह (अपने उपचार के लिए उसने वास्तव में 2000 रु० खर्च किए)
v) वार्डन भत्ता 400 रु. प्रति माह
vi) मकान सम्पत्ति से किराया 3,000 रु. प्रति माह
vii) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान वेतन का 10%
viii) मकान किराया भुगतान 6,000 रु. प्रति माह
ix) अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था को 20,000 रु. का दान
उसकी कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कुल आय की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि वह पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स चुका रही है।

6. निम्नलिखित को स्पष्ट करें:

(5x4)

क) भारत में ITR की ई-फ़ाइलिंग की प्रक्रिया

ख) वेतन के बदले लाभ

ग) माल ढोने वाली गाड़ियों को चलाने, किराए पर देने या लीज़ (पट्टे) पर देने के वयापार के मामले में आय की गणना
(धारा 44AE)

घ) अंशतः कृषि आय (Partly Agriculture Income)